



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1973/पौष 11, 1894

No. 2]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1973/PAUSA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

ORDER

New Delhi, the 1st January 1973

**S.O. 2(E).**—Whereas the Company Law Board is satisfied that, for the purpose of securing co-ordination in policy and the efficient and economical expansion and the carrying on of the shipping business in the public sector in India, it is essential in the public interest that the Jayanti Shipping Company Limited a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) (hereinafter in this order referred to as the said Act), which has become a Government company by virtue of the provisions of the Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Act, 1971 (63 of 1971), and the Shipping Corporation of India Limited, a Government company incorporated under the said Act, which are engaged in the business of shipping goods to and from India, should be amalgamated into a single company.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 396 of the said Act read with the Notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. G.S.R. 443(E) dated

the 18th October, 1972, the Company Law Board hereby makes the following order, namely:—

1. **Short title.**—This order may be called the Shipping Corporation of India and Jayanti Shipping Company Amalgamation Order, 1973.

2. **Definitions.**—In this order, unless the context otherwise requires:—

(a) "appointed day" means the 1st of January, 1973.

(b) "dissolved company" means the Jayanti Shipping Company Limited.

3. **Amalgamation of the Companies.**—As from the appointed day, the undertaking of the dissolved company shall subject to encumbrances thereon stand transferred to and vest in the Shipping Corporation of India Limited, which shall immediately on such transfer be deemed to be the company resulting from the amalgamation.

*Explanation.*—The undertaking of the dissolved company shall include all rights, powers, authorities and privileges, and all property, moveable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments and all other rights and interests in a arising out of such property as may belong to, or be in the possession of, the dissolved company immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents, relating thereto and also debts, liabilities and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

4. **Transfer of certain items of property.**—For the purposes of this Order, all the profits or losses, if any, or both, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue, reserves or deficits, if any, or both, of the dissolved company, when transferred to the company resulting from the amalgamation under the provisions of this Order, shall respectively form part of the profits or losses, if any, or both, and the revenue, reserves or deficits, as the case may be, of the company resulting from the amalgamation.

5. **Saving of contracts, etc.**—Subject to the other provisions contained in this order, all contracts, deeds bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall be of as full force and effect against or in favour of the company resulting from the amalgamation, as the case may be, and may be enforced as fully and effectually as if, instead of the dissolved company, the company resulting from the amalgamation had been a party thereto.

6. **Saving of legal proceedings.**—If on the appointed day, any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the company resulting from the amalgamation, of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, appeal or other proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the company resulting from the amalgamation in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company, if this order had not been made.

7. **Terms of transfer as respects shareholders in the dissolved company.**—(i) Every person registered as a shareholder in the dissolved company immediately before the appointed day, other than the Shipping Corporation of India Ltd., shall, after the appointed day, be entitled to allotment of, and shall be allotted by the company resulting from the amalgamation, as many shares in such company as are equivalent in number and value to the shares held by him in the dissolved company immediately before the appointed day.

(2) The company resulting from the amalgamation shall send by post to every person referred to in clause (i) a notice giving particulars as to the allotment of new shares to him and an allotment letter for the new shares.

(3) Every such shareholder shall be entitled on presentation within two months from the date of receipt of the notice referred to in clause (2), of the allotment letter and the share certificate in respect of the shares held by him in the dissolved company to receive in due course share certificates from the company resulting from the amalgamation in respect of the shares allotted to him.

(4) Any rights specified under clause (3) shall, during the period beginning with the appointed day and ending with the day immediately preceding the day on which the company resulting from the amalgamation issues fresh share certificates to the said shareholders be transferable in like manner as the shares in the company resulting from the amalgamation are transferable, and the transferee of such rights shall be entitled on presentation within thirty days from the date of transfer of the letter of allotment, the relative share Certificates in the dissolved company and the document of transfer, to receive Share Certificates from the company resulting from the amalgamation in the same manner and to the same extent as the transferor would have been entitled.

(5) The paid up share capital of the company resulting from the amalgamation shall be deemed to have been increased by the total value of the shares so allotted under this paragraph to the shareholders of the dissolved company.

**8. Provision with respect to taxation.** All taxes in respect of the profits and gains of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the company resulting from the amalgamation to the same extent as they would have been payable by the dissolved company, if this order had not been made.

**9. Provisions respecting existing officers and other employees of the dissolved company.**—Every officer or other employee (excluding the directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company shall, as from the appointed day, become an officer or other employee, as the case may be, of the company resulting from the amalgamation and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he would have held the same under the dissolved company, if this order had not been made and shall continue to do so unless and until he is duly removed from the employment in the Company resulting from the amalgamation or until his terms and conditions of employment are duly altered by that company.

**10. Position of Directors.**—Every director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

**11. Dissolution of the Jayanti Shipping Company Limited.**—(1) Subject to the other provisions of this order, as from the appointed day,—

(a) the Jayanti Shipping Company Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or an Officer of the dissolved company in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order; and

(b) the right of every shareholder to or in respect of any share in the dissolved company shall be extinguished and thereafter no such shareholder shall make, assert or take claims or demands or proceedings in respect of any such share.

(2) Notwithstanding the dissolution of the Jayanti Shipping Company Limited, the Board of Directors of the Company resulting from the amalgamation shall, as soon as may be after the appointed day, prepare, get audited and lay before the Company resulting from the amalgamation at its general meeting, a balance sheet and profit and loss account of the dissolved company in respect of each of the financial years upto the 31st March, 1972, and for the period from the 1st of April, 1972 to the 31st December, 1972, for which the balance sheet and the profit and loss account have not been laid before the dissolved company.

**12. Registration of the Order by the Registrar of Companies.**—The Company Law Board shall, as soon as may be, after the issue of this Order, send to the Registrar of Companies, Maharashtra, a copy of this Order on receipt of which the Registrar of Companies, Maharashtra shall register the Order on payment of the prescribed fees by the company resulting from the amalgamation, and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of the order.

13. Memorandum and Articles of Association of the Company resulting from the amalgamation.—The Memorandum and Articles of Association of the Shipping Corporation of India Limited, as they stood immediately before the appointed day, shall, as from that day, be the Memorandum and Articles of Association of the Company resulting from the amalgamation.

[No. F. 24/7/72-CL. III.]

By order of the Company Law Board.

CH. S. RAO, Secy.

Company Law Board.

### कम्पनी कार्य विभाग

### (कम्पनी विधि बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1973

सां० आ० 2(अ).—यतः कम्पनी विधि बोर्ड का समाधान हो गया है कि भारत के पब्लिक सैक्टर में नौवहन के कारबार संबंधी नीति में समन्वय तथा उसके क्षमतापूर्ण और मितव्ययी विस्तार को सुनिश्चित करने और क्रियायित करने के प्रयोजन के लिए लोक हित में यह आवश्यक है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड का, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) (जिसे इसके पश्चात् इस आदेश में उक्त अधिनियम कहा गया है) के अधीन नियमित कम्पनी है और जो जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1971 (1971 का 63) के उपबन्धों के फलस्वरूप सरकारी कम्पनी हो गई है और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का, जो भारत को और भारत से साल के नौवहन के कारबार में लगी हुई उक्त अधिनियम के अधीन नियमित सरकारी कम्पनी है, एकल कम्पनी में समामेलन किया जाए :

अतः जब, भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 443 (इ), तारीख 18 अक्टूबर, 1972 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 396 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, कम्पनी विधि बोर्ड, निम्नलिखित आदेश एतद्वारा करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस आदेश का नाम शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और जयन्ती शिपिंग कम्पनी समामेलन आदेश, 1973 है।

2. परिभाषा.—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “नियत दिन” से पहली जनवरी, 1973 अभिप्रेत है;

(ख) “विघटित कम्पनी” से जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड अभिप्रेत है।

3. कम्पनियों का समामेलन.—नियत दिन से विघटित कम्पनी का उपक्रम, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को अधिभार के आधार पर अन्तरित हो जाएगा और उसमें विहित हो जाएगा, जो ऐसे अन्तरण होते ही समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण.—विघटित कम्पनी के उपक्रम में सभी अधिकार, शक्तियां प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी जंगम तथा स्थावन संपत्ति जिसमें रोकड़ अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष, विनिधान तथा ऐसी सम्पत्ति के या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित,

जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के स्वामित्व में हो या उसके कब्जे में हो और उसमें उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज और विघटित कम्पनी के तत्समय विद्यमान किसी प्रकार के ऋण दायित्व और बाध्यताएं भी सम्मिलित होंगी।

4. **संपत्ति के कतिपय सबों का अन्तरण.**—इस आदेश के प्रयोजनों के लिए यथा नियत दिन पर विघटित कम्पनी के, सभी लाभ या हानियां, यदि कोई हों, या दोनों, तथा विघटित कम्पनी का राजस्व, आरक्षितियां या घाटे यदि कोई हों, या दोनों, इस आदेश के उपबन्धों के अधीन समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी को जब अन्तर्गित किए जाए, क्रमशः यथास्थिति समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी के लाभों या हानियों का, यदि कोई हों, या दोनों का और राजस्व, आरक्षितियां घाटे का भाग बन जाएंगे।

5. **संविदा, आदि की व्यावृत्ति.**—इस आदेश में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अस्तित्वयुक्त या नियत दिन के ठीक पूर्व प्रभावी सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और किसी भी प्रकार की अन्य लिखतें, जिनकी विघटित कम्पनी एक भागीदार है, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी की यथास्थिति, उसके विरुद्ध या उसके पक्ष में उतनी ही पूर्ण बल की और प्रभावी होंगी और उतनी ही पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से प्रवर्तित की जा सकेंगी कि यानों विघटित कम्पनी के बजाए समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी उनकी पक्षकार है।

6. **विधिक प्रक्रिया की व्यावृत्ति.**—यदि, नियत दिन पर विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाहियां लांबित हों, उनका उपशमन नहीं होगा, उन्हें बन्द नहीं किया जाएगा या विघटित कम्पनी के समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी को अन्तरण या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण किसी प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावी नहीं होगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति में और उस विस्तार तक चालू रखी जा सकेंगी, अभियोजित की जा सकेंगी और प्रवर्तित की जा सकेंगी कि मानो, यदि यह आदेश न किया जाता, तो विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध वह चालू अभियोजित और प्रवर्तित की जानी या की जा सकें।

7. **विघटित कम्पनी के शेयरधारकों के बारे में अन्तरण के निबंधन.**—नियत दिन के ठीक पूर्व, विघटित कम्पनी में शेयरधारक के रूप में, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से भिन्न, रिजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति, नियत दिन के पश्चात् समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी के, ऐसी कम्पनी के उनसे शेयरों के आवंटन का हकदार होगा और उसके द्वारा उन्हें आवंटित किया जाएगा, जितने नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी में उसके द्वारा धारण किए गए शेयरों की संख्या और मूल्य के बराबर हों।

(2) समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी, खंड (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को उसे नये शेयरों के आवंटन के बारे में विनिष्टियां देते हुए, सूचना तथा अन्य शेयरों के लिए आवंटन-पत्र डाक द्वारा भेजेगी।

(3) ऐसा प्रत्येक शेयरधारक, खंड (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर आवंटन-पत्र और विघटित कम्पनी में उसके द्वारा धारित शेयरों के बारे में शेयर-प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी से, उसे आवंटित शेयरों के बारे में सम्पूर्ण अनुक्रम में शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली और उस दिन के ठीक पूर्ववर्त दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, जिस दिन समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी उक्त शेयरधारकों को नये शेयर प्रमाण-पत्र जारी करनी है, खण्ड (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम उसी प्रकार अन्तर्णीय होंगे जैसा कि समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी के शेयर अन्तर्णीय हैं, और ऐसे अधिकार का अन्तर्णीय विघटित कम्पनी कम्पनी के संबंधित शेयर-प्रमाणपत्रों और अन्तर्ण दस्तावेजों को आवंटन-पत्र के अंतरण की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी, से उसी रीति से और उस विस्तार तक, शेयर-प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने का हकदार होगा। जैसा कि अन्तर्णीय हकदार होता।

(5) समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी की समाप्त शेयर पूंजी विघटित कम्पनी के शेयरधारकों का इस पैरा के अधीन इस प्रकार आवंटित शेयरों के कुल मूल्य द्वारा वर्धित हुई समझी जाएगी।

8. कराधान के बारे में उपबन्ध :—नियत दिन से पूर्व विघटित कम्पनी द्वारा क्रियावित कारबार के लाभों और अभिलाभों के बारे में सभी कर, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी द्वारा उस विस्तार तक संभरें होंगे जहां तक वे, यदि वह आदेश नहीं दिया जाता, तो विघटित कम्पनी द्वारा संभरें होते।

9. विघटित कम्पनी के विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध :—विघटित कम्पनी में, नियत दिन के पूर्व नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कम्पनी के निदेशकों का छोड़ कर) नियत दिन से, यथास्थिति, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी का अधिकारी या अन्य कर्मचारी होगा और उसी कार्यकाल तक और उन्हीं तिवंधनों और शर्तों पर और उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा या उसमें सेवा करेगा जैसा यदि यह आदेश नहीं दिया जाता तो विघटित कम्पनी के अधीन उसे धारण करता, और उसका ऐसा करना जब तक चालू रहेगा जब तक समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी में, नियोजन से, उसे सम्मक् रूप से हटाया नहीं जाता या जब तक उसी कम्पनी द्वारा उसके नियोजन के निश्चय और शर्त सम्मक् रूप से परिवर्तित नहीं की जाती।

10. निदेशकों की स्थिति :—नियत दिन के ठीक पूर्व, विघटित कम्पनी का इस प्रकार पद धारण करने वाला प्रत्येक निदेशक, नियत दिन को विघटित कम्पनी का निदेशक नहीं रहेगा।

11. अग्रणी गिफिंग कम्पनी लिमिटेड का विघटन :—(1) इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहने हुए, नियत दिन से—

(क) जयन्ती गिफिंग कम्पनी लिमिटेड, विघटित होगी और कोई भी व्यक्ति विघटित कम्पनी के विरुद्ध या ऐसे निदेशक या अधिकारी को अपनी हैसियत में विघटित कम्पनी के निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध इस आदेश के उपबन्धों के प्रवर्तित करने के लिए यावत्कथ्य आवश्यक हो उसके सिवाय, दावा नहीं करेगा, मांग नहीं करेगा या किन्हीं कार्यवाहियों नहीं करेगा; और

(ख) विघटित कम्पनी में प्रत्येक शेयरधारक का किसी शेयर का या उसके बारे में अधिकार समाप्त किया जाएगा, और उसके पश्चात् कोई ऐसा शेयरधारक किसी ऐसे किसी ऐसे शेयर के बारे में कोई दावा नहीं करेगा या मांग नहीं करेगा या कार्यवाहियां नहीं करेगा।

(2) जयन्त शिपिंग कम्पनी लिमिटेड का विघटन होने पर, भी, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी का निदेशक बोर्ड, नियत दिन के पश्चात् यावत्तक्य शीघ्र 31 मार्च, 1972 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में और 1 अप्रैल, 1972 से 1 जनवरी 1973 तक की अवधि के लिए, जिसके लिए विघटित कम्पनी के समक्ष-तुलना-पत्र तथा लाभ हानि लेखा नहीं रखे गए हैं, विघटित कम्पनी का तुलना-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा बनवाएगा, उसकी लेखा-परीक्षा करवाएगा और समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी की उसकी साधारण बैठक में उसके समक्ष रखेगा।

12. कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण.—कम्पनी विधि बोर्ड, इस आदेश को जारी करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा, जिसकी प्रति पर कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र, समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी द्वारा विहित कोष के पंदाप पर वह आदेश रजिस्ट्रार करेगा और उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा।

13. समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी के संगम-जापन और संगम अनुच्छेद.—शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संगम-जापन और संगम अनुच्छेद, जैसे वे नियत दिन के ठीक पूर्व थे, उस तारीख से समामेलन के परिणामस्वरूप बनी कम्पनी के संगम जापन और संगम अनुच्छेद होंगे।

[सं० 24/7/72-पृ० पृ० III]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

सी एन० एम० राव, सचिव।

कम्पनी विधि बोर्ड।

